



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 फाल्गुन 1930 (श0)  
(सं0 पटना 51) पटना, सोमवार, 2 मार्च 2009

सं0-2/सी-10120/08 का0-10510  
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

24 सितम्बर 2008

श्री सुनील कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 740/04 प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज, मधेपुरा को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता बरतने संबंधी ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 12214 दिनांक 02.09.08 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -9 (1) (क) के तहत आदेश निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -10 के तहत अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री सुनील कुमार, बि0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,  
राजेन्द्र प्रसाद,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 51-571+10-डी0टी0पी0।